



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 03.09.2021**

# **महोबा पुलिस**

**सोशल मीडिया सेल**



**पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर दुष्कर्म/पाँक्सो एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी सफल पैरवी की गयी,  
जिसके अन्तर्गत 02 माह ( जुलाई - अगस्त ) के अन्दर 14 अभियुक्तों को दिलायी गयी सजा।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा स्वयं के पर्यवेक्षण में मिशनशक्ति अभियान के तहत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकताओं के साथ विश्लेषण करते हुये शासन की प्राथमिकता के आधार पर महिला उत्पीडन से सम्बन्धित पीडिता को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने के क्रम में बालिकाओं के प्रति घटित पाक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अपराधों में श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र०द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर वर्ष 2021 में 02 माह (जुलाई – अगस्त) के अन्दर चिन्हित 14 अभियोगों में मां० न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी जिसके क्रम में मां० न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी, वाद में प्रभावी पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक, पाक्सो एक्ट श्री पुष्पेन्द्र कुमार व श्री अमन कुमार सिंह को प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 03.09.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



मिशन शक्ति अभियान के तहत पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत माह जुलाई एवं अगस्त 2021 में हुये निर्णीत वादों में दिलायी गयी सजा का विवरण

माह	क्रम	अपराध सं०	धारा	थाना	अभियुक्त	मां० न्यायालय	सजा दिनांक
जुलाई	1	196/18	363/366/368/376(2)झ/376 घ क भावदि व 04 पाक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट	अजनर	रज्जू उर्फ राजू साहू पुत्र मनप्यारे नि० चमरुवा थाना अजनर	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 14.07.2021 22 वर्ष की सजा
	2	474/17	354 भादवि व 08 पाक्सो एक्ट	चरखारी	हलकुझा उर्फ राजकुमार पुत्र बाबूलाल नि० सोजना थाना चरखारी	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 20.07.2021 03 वर्ष की सजा
	3	97/18	354ए/323/504 भादवि 08 पाक्सो एक्ट	खरेला	कामता कुशवाहा पुत्र घण्डल कुशवाहा नि० बराय थाना खरेला	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 23.07.2021 03 वर्ष की सजा
	4	51/18	354ए/506 भादवि व 08 पाक्सो एक्ट	कुलपहाड	फूलसिंह रैकवार पुत्र रामदयाल रैकवार नि० मुहाडी थाना कुलपहाड	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 28.07.2021 03वर्ष की सजा
	5	77/17	354क/504/506 भादवि व 08 पाक्सो एक्ट	खन्ना	लखन पुत्र देवश्री प्रजापति नि० खिरुही थाना खन्ना	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 30.07.2021 03वर्ष की सजा

मिशन शक्ति अभियान के तहत पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत माह जुलाई एवं अगस्त 2021 में हुये निर्णीत वादों में दिलायी गयी सजा का विवरण

माह	क्रम	अपराध सं०	धारा	थाना	अभियुक्त	मां० न्यायालय	सजा दिनांक
अगस्त	1	261/18	354ख/323/342 भादवि व 08 पाक्सो एक्ट	पनवाडी	देशराज अहिरवार पुत्र लल्लू अहिरवार नि० जखा थाना पनवाडी	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 03.08.2021 03 वर्ष की सजा
	2	876/14	363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट	कोतवाली महोबा	भूरा उर्फ अमर चन्द पुत्र जयराम घोमर नि०मु० मनमुख बेलाताल कुलपहाड	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 05.08.2021 आजीवन कारावास की सजा
	3	107/15	354क भादवि व 08 पाक्सो एक्ट	अजनर	दलीचन्द्र राजपूत पुत्र प्रभुदयाल नि० बडखेरा थाना अजनर	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 12.08.2021 03 वर्ष की सजा
	4	109/19	354क/506 भादवि व 08 पाक्सो एक्ट	अजनर	हुसैन बक्श	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 13.08.2021 03 वर्ष की सजा
	5	742/13	354भादवि व 08 पाक्सो एक्ट	पनवाडी	मो० आमिर पुत्र उबल नि०मु० मण्डी कस्बा पनवाडी	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 16.08.2021 01वर्ष 06माह
	6	50/19	354 क भादवि व 08 पाक्सो एक्ट	खन्ना	तेज प्रताप उर्फ हल्के पुत्र शिवकुमार नि० बानी 76डेरा खन्ना	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 19.08.2021 04 वर्ष की सजा
	7	.04/19	354 क भादवि व 08 पाक्सो एक्ट	खन्ना	पवन उर्फ कल्लू पुत्र मूलचन्द्र अहिरवार नि० गुदा मौदहा हमीरपुर	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 21.08.2021 03 वर्ष की सजा
	8	77/19	354 क भादवि व 08 पाक्सो एक्ट	अजनर	राजाराम मिश्रा पुत्र स्व० सुन्दर लाल मिश्रा नि० स्यावन अजनर	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 27.08.2021 03 वर्ष की सजा
	9	77/19	354/323/504 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब(1)3(2)5क एससी/एसटी एक्ट	खरेला	बल्लू पुत्र लल्लू कुमार नि० चंदौली थाना खरेला	विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट	दिनांक 31.08.2021 04 वर्ष की सजा



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 03.09.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



आज दिनांक 03.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के द्वारा पुलिस लाइन महोबा का निरीक्षण किया गया जिसमें सर्वप्रथम क्वार्टर गार्ड में सलामी लेकर जी0पी0 स्टोर व शस्त्रागार का निरीक्षण किया गया जिसमें प्रमुख रूप से साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देते हुये कण्डम पडे सामान पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जिससे परिसर साफ-सुथरा दिखायी दे तदोपरान्त पुलिस लाइन्स स्थित बैरक/आवासीय परिसरों का निरीक्षण कर मौजूद पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं को जाना गया जिसके निस्तारण के सम्बन्ध में प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में कण्ट्रोल रूम / डॉयल – 112 महोबा का औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमुख रूप से साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये, इसी क्रम में कण्ट्रोल रूम के निरीक्षण में संचालन के सम्बन्ध में निरीक्षण कर खराब पडे वायरलेस सेट को कमेटी बनाकर कण्डम कराये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये । डायल-112 कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जनपद में संचालित 112 की गाडियों की लोकेशन जांची गयी जिसमें उनके रुटचार्ट को भी देखा गया जिसके क्रम में निर्देशित किया गया कि डायल 112 की गाडियों की उपस्थिति जनता के बीच बनी रहनी चाहिये जिससे क्षेत्र की जनता को सुरक्षा की भावना का एहसास हो ।

निरीक्षण के दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री सैनजीत सिंह, प्रभारी परिवहन शाखा, पीआरओ उ0नि0 राजेश मौर्य व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 03.09.2021**

# **महोबा पुलिस**

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना श्रीनगर पुलिस ने वांछित बाल अपचारी को किया गिरफ्तार-**

आज दिनांक 03.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर अनिल कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार शुक्ला मय टीम (सादे वस्त्रों में) के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 133/21 धारा 363 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट का वांछित बाल अपचारी मोनू जोशी पुत्र शंकर जोशी उम्र 16 वर्ष निवासी मु0 जिमीदारी कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को बेलाताल तिराहा कस्बा श्रीनगर से गठित सादे वस्त्रों में पुलिस टीम ने हिरासत में लेकर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करते हुये बाल अपचारी को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा ।

## **गिरफ्तार करने वाली टीम -**

1. उ.नि.वीरेन्द्र कुमार शुक्ला
2. का0 शिवम कुमार 3. का0 दिलीप कुमार

## **गिरफ्तार बाल अपचारी -**

मोनू जोशी पुत्र शंकर जोशी उम्र 16 वर्ष निवासी मु0 जिमीदारी कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा ।







**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 03.09.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **महिला थाना प्रभारी ने परिवार परामर्श कर एक बार फिर पति - पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचाया।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना प्रभारी शिल्पी शुक्ला द्वारा एक बार फिर पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया। है, उल्लेखनीय है कि श्रीमती रोशनी पत्नी आकाश कठेरिया निवासी मोहल्ला नैकानापुरा जनपद महोबा द्वारा अपने पति आकाश के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 03.09.2021 को प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु दोनों पक्षों को महिला थाना बुलाया गया था जिसमें दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, दोनों को समझाया गया, जिसके उपरान्त दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा, इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 03.09.2021 को आपस में सुलह की गयी, सुलह होने पर दोनों पक्षों को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से आपस में मिलजुलकर रहने तथा पति पत्नी के कर्तव्यों को निर्वाहन करने की सलाह दी गयी।



### **महिला थाना टीम -**

1. प्रभारी महिला थाना उ0नि0 शिल्पी शुक्ला।
2. महिला कांस्टेबल चांदनी 3. महिला कांस्टेबल प्रीति पटेल
4. महिला पीआरडी संतोषी महिला पीआरडी सरला देवी



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 03.09.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना श्रीनगर का औचक निरीक्षण किया गया एवं जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में पैदल गस्त करके कस्बे में की गई संदिग्धों की चेकिंग तथा यातायात प्रभारी द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चलाया अभियान**



आज दिनांक 03.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा थाना श्रीनगर का औचक निरीक्षण किया गया तथा महिला हेल्पडेस्क में निरीक्षण दौरान शिकायती रजिस्टर को चेक किया तथा महिला बीट अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश एवं मय पुलिस बल कैमाह बार्डर में चलाया सघन चेकिंग अभियान जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत

करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा यातायात प्रभारी श्री अरविन्द मिश्रा द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चलाया अभियान चेकिंग ब्रीथ इनलाइजर से की गयी।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **30 ई-चालान** एवं कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **13 व्यक्तियों में 180000** वसूला गया।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक:- 03.09.2021

# महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



Mahoba Police